



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 जेष्ठ, 1941 (श०)

संख्या- 450 राँची, गुरुवार,

13 जून, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

10 जून, 2019

संख्या-5/आरोप-1-147/2017-2658 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अरूण उराँव, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, बोकारो के विरुद्ध श्री संतोष कुमार सहायक का सप्तम वेतन पुनरीक्षण का बकाया राशि लंबित रखने तथा श्री कुमार को बेवजह परेशान करने एवं पैसे की माँग करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-87/स्था०, दिनांक 16.02.2019 द्वारा संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री उराँव के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री उराँव को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित

बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री उराँव द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है ।

5. श्री उराँव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु स्थापना उप समाहर्ता, बोकारो को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ARUN ORAON 110043181678	श्री अरूण उराँव, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, बोकारो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
